



भारत का राजपत्र The Gazette of India

94
6

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 3, 1977/पौष 13, 1898
No. 1] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 3, 1977/PAUSA 13, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 3rd January 1977

SUBJECT —Import of Fruits, dried, salted or preserved all sorts, NOS excluding Dates (S No 21(a)(i)/IV), (ii) Dates (S No 21(b)/IV), (iii) Medicinal Herbs (Crude Drugs) (S No 87-109/IV), (iv) Asafoetida (S. No 31(b)/V) and other Miscellaneous items from IRAN during November, 1976—October, 1977

No. 1-ITC(PN)/77.—It has been decided to grant licences for import of various commodities from Iran during November '76—October '77, to the Established importers, having past imports within the prescribed basic years, as shown against each item in Annexure I to this Public Notice. The licensing policy for each item has been indicated in Col 6 of the aforesaid Annexure.

2. The Established Importers, eligible in terms of the current policy, may submit their applications to the respective licensing authority viz. Chief Controller of Imports & Exports, Bombay or Chief Controller of Imports & Exports, (Central Licensing Area), New Delhi on or before the 3rd February, 1978, in the usual form and manner. No past import documents are required to be produced, provided such documents were submitted to the licensing authority concerned in

the past and were accepted by them for issue of licences for import of commodities from Iran indicated in Annexure I. They should, however, quote details of licences obtained in the preceding two periods. Where, however, the Established Importers are applying for the first time, they are required to produce unimpeachable documents relating to past imports from Iran in respect of the items as in Annexure I for any one year within the prescribed basic years.

3 It has also been decided that the importers, who are eligible in terms of Annexure II to this Public Notice will also be granted licences for import of Dry Fruits only from Iran on equal value basis of Rs 8,500 each. They may submit their applications for import of Dry Fruits only from Iran for November '76—October '77 licensing period to the Jt Chief Controller of Imports & Exports, (Central Licensing Area), New Delhi on or before the 3rd February, 1977 in the usual form and manner, complete in all respects.

4. The minimum value of licences for dry fruits will be Rs 8,500/-. The minimum value of licences for Dates, Asafoetida and Gums & Resins licensable on quota percentage basis, will be Rs. 1000/- for the year. It is, however, clarified that in the case of transfer/division of quota by Established Importers relating to above cases, the succeeding parties will be entitled to get licences in proportion to their share in approved quota of the original firm as provided in Para 45(2) of the I.T.C Hand Book of Rules and Procedure, 1976-77. Where the licences are issued on equal value basis in terms of this Public Notice, the entitlement of each party is to be divided proportionately among the split up concerns of the parent firm, in case of transfer/division of quota rights.

5. It may be noted that no double benefit will be given in respect of Dry Fruits, which is permitted for import both under Annexure I and Annexure II. The applicants for dry fruits should submit only one application either in terms of Annexure I or in terms of Annexure II, and they should clearly mention in their application that they have applied in one capacity only and not under both.

6. Established Importers, holding quota certificates for Crude Drugs on General Currency Area, which includes Iran, who are desirous of claiming licences under this policy have to have past imports of Crude Drugs from Iran in a different basic year than the one for which they hold quota certificates on General Currency Area. Evidence to this effect should be produced to the licensing authority, so that no double benefit accrues in respect of the same past imports.

7. Licensing will be done within the monetary limit fixed for each item. All late/incomplete applications are liable to be rejected.

8. Import licences granted in eligible cases will be valid for import from Iran either by sailing vessels or land route. In the case of Dry Fruits, import will be allowed by steamships upto the full face value of the licences and such imports will be on cif basis. In the case of Dates import may be effected by land route, sailing vessels or steamship of either country whichever is available earliest if the licensees so desire at any time during the validity period of the licences.

9 Import licences issued in pursuance of this Public Notice will be valid upto 31st October, 1977 and will not be extended.

10 The provisions of Paragraph 115 and 116 of Section I of the Import Trade Control Policy Book (Vol I) for the period April '76—March '77, relating minimum and maximum value of licences will not apply to the licences issued in terms of this Public Notice.

11 Attention of Importers of asafoetida is invited to the Prevention of Food Adulteration Rules and in their own interest, they are advised to ensure that asafoetida imported from Iran conforms to the specifications prescribed under the aforesaid rules. In order to ensure that the asafoetida imported by the importers conforms to the prescribed standard, Port Health Organisations will test each consignment of asafoetida. Port Health Organisations after testing each consignment will seal the asafoetida (Hing) bags under their own seal. These bags may not be further subjected to testing by State/Local bodies so long as their seals are intact and there is no evidence that the bags have been tampered with unless there are some special reasons for the same.

ANNEXURE I

No. & Part of the ITC Schedule.	Description	Licensing Authority	Val'dity of licences	Basis of eligibility	Licensing policy
1	2	3	4	5	6
(i)2I(a)(ii)/IV	Dry Fruits	Jt. CCI & E (CLA), New Delhi & Jt. CCI & E, Bombay.	Upto 31st October, 1977.	Applications from established importers having past imports of dry fruits from Iran within the period from 1951-52 to 1970-71 will be considered.	27% of best year's imports during the basic period, subject to a minimum of Rs. 8,500-.
(ii)2I(b)/IV	Dates	Do.	Do.	Applications from established importers having past imports of dates from Iran within the period from 1951-52 to 1970-71 will be considered.	100% of best year's imports during the basic period.
(iii)34-37(d)/V	Red Oxide	Do.	Do.	Applications from established importers having past imports of Red Oxide from Iran within the period from 1951-52 to 1970-71 will be considered.	On equal value basis.
(iv)3I(b)/V	Asafoetida	Do.	Do.	Applications from established importers having past imports of Asafoetida from Iran within the period 1951-52 to 1970-71 will be considered.	100% of best year's imports during the basic period.
(v)87-109/IV	Medicinal Herbs, Crude Drugs listed in Annexure I & II of Appendix 19 to the Red Book for April, 1976-March, 1977.	Do.	Do.	Applications from established importers having past imports of Crude Drugs from Iran within the period from 1951-52 to 1970-71 will be considered.	On equal value basis.
(vi) 7/V	Gums, Resins and Lac all sorts, n.o.s. excluding olibanum and frankincense.	Do.	Do.	Applications from established importers having past imports of these items from Iran within the period from 1951-52 to 1970-71 will be considered.	45% of best year's imports during the basic period.

100 IOD-17094

Am. No.

14.3.78

Date

Signature

(Sd/-)

ANNEXURE II

S.No. & part of the ITC Schedule.	Description	Licensing Authority	Validity of licences	Basis of eligibility	Licensing policy.
1	2	3	4	5	6
21(a)(ii)/IV	Dry fruits	Jt. CCI&E (CLA) New Delhi.	Upto 31st October, 1977.	<p><i>Ad-hoc</i> licences for import of dry fruits from Iran will be issued to :—</p> <p>(i) Established importers who have imports of fresh fruits to their credit from Afghanistan during the five years ended 30-6-57.</p> <p>(ii) Established importers who have imports of fresh fruits to their credit from any of the countries in the 'General Area' including Pakistan but excluding Afghanistan, during the period from 1951-52 to 1970-71.</p> <p>(iii) Established Importers who have imports of fresh fruits to their credit from any of the countries in the 'General Area' including Pakistan but excluding Afghanistan during the period from 1945-46 to 1950-51, provided these imports had been accepted by the licensing authority for grant of <i>ad-hoc</i> licences for import of fresh fruits from Pakistan during 1960 to 1964.</p> <p>(iv) Established importers who have imports of dry fruits to their credit from Pakistan during the period from 1951-52 to 1970-71.</p> <p>(v) Co-operative Societies dealing in fresh fruits, subject to the production of :—</p> <p>(a) a certificate from the concerned Registrar of Co-operative Societies that the Co-operative Society is still in existence;</p>	On equal value basis of Rs. 8,500/- each.

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

(b) an affidavit in the proforma enclosed vide Annexure III,

(c) a certificate from a Chartered Accountant to the effect that the Society had a turn-over of not less than Rs. 15000/- (Rs. Fifteen thousand) during any one of the financial years 1967-68, 1968-69, 1969-70, 1970-71 and 1971-72 in fresh fruits.

If a certificate as referred to in sub-para (c) above had been produced in the past and it had been accepted by the licensing authority concerned for the issue of licences for import of dry fruits from Iran, it need not be produced again. Only a reference to the earlier application with which such a certificate had been furnished should be made.

ANNEXURE III

FORM OF AFFIDAVIT

Affidavit of Shri S/o residing at Secretary/President of (Name & address of the Cooperative Society).

I, the above named deponent, do hereby solemnly affirm and declare that I am duly authorised to affirm this affidavit on behalf of (Name of Cooperative Society) and declare as under:—

- (i) That the (Name and address of Cooperative Society) has been and is still dealing in fresh fruits.
- (ii) That any licence granted to the aforesaid Cooperative Society on the basis of this declaration is liable to be cancelled without prejudice to any penalty that the Government may impose or any other action that may be taken under the Imports and Exports (Control) Act and Imports (Control) Order, 1955 as amended, in case it is found that the declaration as stated in para (i) above is incorrect or false

Deponent _____

Verification

I, do hereby affirm and declare that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed.

Deponent _____

A. S. GILL,
Chief Controller of Imports & Exports.

बाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 1977

विषय :—नवम्बर 1976 से अक्टूबर, 1977 के दौरान फलों, मेवे, नमकीन अथवा हर प्रकार के परिरक्षित खजूरों को छोड़कर अन्यथा जो उल्लिखित नहीं है (क्रम सं० 21(ए8) (2)/4), (2) खजूर क्रम सं० 21(बी)/4, (3) औषधीय बूटियाँ (अपरिष्कृत औषधियाँ) क्रम संख्या 87-109/4, (4) हींग (क्रम सं० 31(बी)/5) तथा अन्य विविध मदों का ईरान से आयात ।

संख्या 1—आई टी सी (पी एन)/ 77.—प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना के अनुबन्ध—1 के लिए दिखाई गई मदों में से हर एक अलग मद के लिए नवम्बर, 1976 के अक्टूबर, 1977 की अवधि के लिए स्थापित आयातकों को, जिन्होंने निहित आधारभूत वर्ष में आयात किया था, ईरान से विभिन्न पदार्थों के आयात के लिए लाइसेंस देने का निश्चय किया है । हर एक मद के लिए लाइसेंस देने की नीति वर्णित अनुबन्ध के कालम 6 में बताई गई है ।

2. वर्तमान आयात नीति के अन्तर्गत पात्र संस्थापित आयातकों को चाहिए कि वे अपना आवेदन पत्र सम्बन्धित लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकारी अर्थात् संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात नियमित, सम्बद्ध या सयुक्त मुख्य नियंत्रक (केन्द्रीय लाइसेंस क्षेत्र) नई दिल्ली को विहित प्रपत्र में और विधि रूप से 3 फरवरी, 1977 तक अथवा उससे पहले भेज दे, पिछले किए गए आयात के सम्बद्ध दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि उन दस्तावेजों को सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को ईरान से पदार्थों के आयात लाइसेंसों के लिए, जिन पदार्थों का उल्लेख अनुबन्ध—1 में किया गया है, पहले भेजा गया था और वे मंजूर कर लिए गए थे । परन्तु, उनके लिए यह आवश्यक होगा कि उन्होंने पूर्वतः दो अवधियों में जो लाइसेंस लिए थे, उनका व्यौरा दें, परन्तु जहाँ स्थापित आयातक पहली बार पत्र भेज रहे हैं, उन्हें चाहिए कि विहित आधार पर भूत वर्ष में से किसी भी एक वर्ष में ईरान से आयात की गई मदों का, जिनका व्यौरा अनुबन्ध—1 में दिया गया है, उससे संबंधित सहायता दस्तावेजों को प्रस्तुत करें ।

3 यह भी निश्चय किया गया है कि ऐसे आयातक, जो प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना के अनुबन्ध 2 के अन्तर्गत योग्य हैं, उन्हें केवल ईरान से प्रत्येक 8,500/—रुपए के समान मूल्य के आधार पर सूखे फलों के आयात के लिए लाइसेंस भी दिए जायेंगे । उन्हें चाहिए कि वे नवम्बर, 1976 से अक्टूबर, 1977 की लाइसेंस अवधि के लिए ईरान से केवल सूखे फलों के आयात के लिए आवेदन पत्रों को हर प्रकार से पूरा करके विहित प्रपत्र में और विधि रूप से संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-नियमित (केन्द्रीय लाइसेंस क्षेत्र), नई दिल्ली को 3 फरवरी 1977 तक अथवा उससे पहले भेज दें ।

4. सूखे फलों के लिए लाइसेंसों का न्यूनतम मूल्य 8,500/—रुपए होगा । खजूर हींग और गोंद तथा रेजिन्स जो कोटा प्रतिशतता के आधार पर लाइसेंस के योग्य हैं, उनके

लिए वर्ष के लिए लाइसेंस का न्यूनतम मूल्य 1000/-रुपए होगा। लेकिन, इस बात का स्पष्टीकरण किया जाता है कि उपर्युक्त मामलों से सम्बन्धित स्थापित आयातकों द्वारा कोटा के स्थानान्तरण/विभाजन की स्थिति में आयात व्यापार नियंत्रण नियम और कार्य विधि हैडबुक 1976-77 की कड़िका 45(2) में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार अनुधर्ती पाटिया मूल फर्म के स्वीकृत कोटे में से अपने हिस्से के अनुपात में लाइसेंस प्राप्त करने के अधिकारी होंगी। प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना के अनुसार जहाँ समान मूल्य के आधार पर लाइसेंस दिए जाते हैं, कोटा अधिकारों के स्थानान्तरण/विभाजन होने की स्थिति में मूलफर्म से सम्बन्धित पिपाटी के भीतर हर एक पार्टी के हक का अनुपातिक रूप से आबंटन किया जाता है।

5. यह ध्यान रहे कि सूखे फल जो अनुबन्ध—1 तथा 2 दोनों के अन्तर्गत आयात के लिए अनुज्ञप्त है, इनके सम्बन्ध में दोनों प्रकार के लाभ नहीं दिए जायेंगे। सूखे फलों के आयात करने वाले आवेदकों को चाहिए कि वे या तो अनुबन्ध 1 की शर्तों के अनुसार अथवा अनुबन्ध 2 की शर्तों के अनुसार केवल एक ही आवेदन पत्र भेजे और उन्हें चाहिए कि वे अपने आवेदन पत्रों में स्पष्ट रूप से लिख दें कि उन्होंने केवल एक के लिए आवेदन पत्र भजा है न कि दोनों के लिए।

6 सामान्य मुद्रा क्षेत्र, जिसमें ईरान सम्मिलित है, से अपरिणत भेषजों के लिए कोटाधारी स्थापित आयातक जो इस नीति के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक है, उनके लिए यह अनिवार्य है कि जिस वर्ष के लिए उनके पास सामान्य मुद्रा क्षेत्र के लिए कोटा प्रमाण है, उससे भिन्न किसी एक मूल वर्ष में, भूतकाल में उन्होंने ईरान से अपरिणत भेषजों का आयात किया हो। इस सम्बन्ध में, लाइसेंस प्राधिकारी को साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए जिस से कि भूतकाल में किए गए एक ही प्रकार के आयातों के लिए दो तरफ़ा लाभ उपाजित न किया जाए।

7. हर एक मद की निश्चित मीट्रिक सीमा के भीतर ही लाइसेंस दिया जाएगा। सभी ढेर से आने वाले अधूरे आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

8 वैध मामलों में दिए जाने वाले आयात लाइसेंसों का ईरान से नौप्रस्थान पोतों अथवा मार्गों से आयात के लिए वैध माना जाएगा। सूखे फलों के मामले में, लाइसेंसों के पूरे अंकित मूल्य तक पोतनाव द्वारा आयात करने की इजाजत होगी और ऐसे आयातों का आधार लागत-सीमा भाड़ा होगा। यदि लाइसेंस की वैधता अवधि के समय लाइसेंसधारी किसी समय ऐसा चाहे तो खजूरों के मामले में आयात स्थल मार्ग, नावपोतों या किसी भी देश के पोतों—जो भी पहले उपलब्ध हो उसी के द्वारा किया जा सकता है।

9 प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना के विषय में जारी किए गए लाइसेंस 31 अक्टूबर 1977 तक वैध होंगे तथा भविष्य में उनकी अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी।

10. अप्रैल, 76—मार्च, 77 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (आ० 1) के खंड 1 की कड़िका 115 और 116 में दी गई व्यवस्थाएँ जो लाइसेंसों के न्यूनतम तथा अधिकतम मूल्य से सम्बन्धित हैं, इस सार्वजनिक सूचना के अनुसार जारी किए गए लाइसेंसों के लिए लागू नहीं होंगी।

11. हींग के आयातकों का ध्यान खाद्य मिलावट निरोधक नियमों की ओर दिलाया जाता है और उनके निजी हित के लिए उन्हें यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि

ईरान से आयात किया हींग पूर्ण नियमों के अन्तर्गत निर्धारित विशिष्टकरणों के अनुसार हों। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आयातको द्वारा आयात किया गया हींग निर्धारित मानक के अनुरूप है, पत्तन पर स्वास्थ्य मगठन हींग के प्रत्येक परेषित माल का परीक्षण करेगा। प्रत्येक बार परेषित माल का परीक्षण करने के बाद पत्तन स्वास्थ्य मगठन अपनी निजी सील के अन्तर्गत हींग के थैलों को सीलबन्ध करेगा। इन थैलों को राज्य/स्थानीय निकायों द्वारा आगे तब तक परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि उन की सील सम्पूर्ण है और जब तक विशेष कारणों से यह साक्ष्य नहीं मिलता है कि उन में सम्मिश्रण किया गया है।

Divin -	
Ass -	
W. No.	
Cell No.	
Processed	
Date of Transf.	

अनुबंध—1

आयात व्यापार नियंत्रण अनुसूची की स० तथा भाग	विवरण	लाइसेंस प्राधिकारी	लाइसेंसों की वैधता	पात्रता का आधार	लाइसेंस नीति
1	2	3	4	5	6
(1) 21 (ए) (2)/4	सूखे फल	संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात (केन्द्रीय लाइसेंस क्षेत्र) नई दिल्ली तथा संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, लम्बई-1	31 अक्टूबर, 1977 तक	उन संस्थापित आयातकों को आवेदन पत्रों पर विचार किया जाएगा जिन्होंने पहले ईरान से 1951-52 से लेकर 1970-71 की अवधि के दौरान सूखे फलों का आयात किया था।	आधारभूत अवधि में सर्वोत्तम वर्ष के आयात का 27 प्रतिशत कम से कम 8500/- रु० के अधीन
(2) 21 (बी)/4	खजूर	वही	वही	उन संस्थापित आयातकों के आवे- दन पत्रों पर विचार किया जाएगा, जिन्होंने पहले ईरान से 1951-52 से लेकर 1970-71 की अवधि के दौरान खजूरों का आयात किया था।	आधार भूत अवधि में सर्वोत्तम वर्ष के आयात का 100 प्रतिशत
(3) 34-37 (डी)/5	रेड आक्साइड	वही	वही	उन संस्थापित आयातकों के आवेदन पत्रों पर विचार किया जाएगा, जिन्होंने पहले ईरान से 1951-52 से लेकर 1970-71 की अवधि के दौरान रेड आक्साइड का आयात किया था।	सामान मूल्य के आधार पर

1	2	3	4	5	6
(4) 31(बी)/5	हींग	संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात (के० ला० क्षेत्र) नई दिल्ली तथा संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, बम्बई-1	वही	उन संस्थापित आयातकों के आवेदन पत्रों पर विचार किया जाएगा जिन्होंने पहले ईरान से 1951-52 से लेकर 1970-71 की अवधि के दौरान हींग का आयात किया था।	आधारभूत अवधि में सर्वोत्तम वर्ष के आयात का 100 प्रतिशत
(5) 87-109/4	औषधीय वृष्टियां अपरिष्कृत औषधियां जिन की सूची अप्रैल, 1976-मार्च 1977 की रेडबुक के परिशिष्ट 19 के अनुबध्द-1 तथा 2 में दी गई हैं।	वही	वही	उन संस्थापित आयातकों के आवेदन पत्रों पर विचार किया जाएगा, जिन्होंने पहले ईरान से 1951-52 से लेकर 1970-71 की अवधि के दौरान अपरिष्कृत औषधियों का आयात किया था।	सामान मूल्य के आधार पर
(6) 7/5	गोंद रेजिन्स तथा लाख हर किस्म के जो अन्यथा रूप से उल्लिखित नहीं हैं। लोहबान बहने वाला गोंद को छोड़कर।	वही	वही	उन संस्थापित आयातकों के आवेदन पत्रों पर विचार किया जाएगा जिन्होंने पहले ईरान से 1951-52 से लेकर 1970-71 की अवधि के दौरान इन मदों का आयात किया था।	आधारभूत अवधि में सर्वोत्तम वर्ष के आयात का 45 प्रतिशत।

अनुबंध—2

आईटीसी अनुसूची की संख्या तथा भाग	विवरण	लाइसेंस प्राधिकारी	लाइसेंस की वैधता	पात्रता का आधार	लाइसेंस देने की नीति
1	2	3	4	5	6
21(ए)(2)/4	सूखे फल	संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात (केन्द्रीय लाइसेंस क्षेत्र) नई दिल्ली।	31 अक्टूबर, 1977 तक	ईरान से सूखे फलों के तदर्थ आयात लाइसेंस इनको दिए जाएंगे :— (1) उन संस्थापित आयातकों को जिन्होंने अफगानिस्तान से ताजे फलों का आयात पांच वर्षों के दौरान अपने खाते पर किया था जिसका अन्त 30-6-57 को हुआ। (2) उन संस्थापित आयातकों को जिन्होंने ताजे फलों का आयात 1951-52 से लेकर 1970-71 तक की अवधि	प्रत्येक 8500 इ० के समान मूल्य के आधार पर।

1

2

3

4

5

6

के दौरान किसी सामान्य क्षेत्र में आने वाले देशों में अफगानिस्तान को छोड़कर किन्तु पाकिस्तान शामिल है, अपने खाते से किया हो।

- (3) उन संस्थापित आयातकों को जिनका ताजे फलों का आयात 1945-46 से 1950-51 की अवधि के दौरान किसी सामान्य क्षेत्र से आने वाले देशों में अफगानिस्तान को छोड़कर, जिस में पाकिस्तान शामिल है, अपने खाते से किया हो, बशर्ते कि 1960-64 के दौरान पाकिस्तान से किए जाने वाले तदर्थ ताजे फलों के आयात लाइसेंसों को लाइसेंस प्राधिकारी ने मंजूर कर लिया था।

- (4) उन मस्थापित आया-
तकों को जिनका मुखे फलों
का आयात 1951-52 से
लेकर 1970-71 की अवधि
के दौरान उनके खाते मे हो।
- (5) ताजा फलों का व्यापार
करने वाली सहकारी समि-
तियों को निम्नलिखित प्रस्तुत
करने पर.—
- (क) सम्बद्ध सहकारी समि-
तियों के पंजीयक से इस
संबंध में एक प्रमाण पत्र कि
सहकारी समितियां अभी
भी विद्यमान हैं,
- (ख) संलग्न प्रपत्र में एक
शपथ-पत्र, देखें अनुबंध-3।
- (ग) सनदी लेखापाल से इस
संबंध में एक प्रमाणपत्र कि
वित्तीय वर्ष 1967-68,
1968-69, 1969-70,
1970-71 एवं 1971-
72 के दौरान समिति का
ताजे फलों का व्यवसाय
15,000/- रुपये (पन्द्रह

6

5

4

3

2

1

हजार रुपये) से कम नहीं
था।

यदि उपर्युक्त उप-कंडिका (गै) में
यथा संदर्भित एक प्रमाण पत्र
भूत में प्रस्तुत कर दिया गया था
और यह ईरान से सूखे फलों के
आयात के लिए लाइसेंस जारी
करने के लिए लाइसेंस प्राधिकारी
द्वारा स्वीकार कर लिया गया था
तो उसे पुनः प्रस्तुत करने की
आवश्यकता नहीं है। केवल पूर्व
के आवेदन पत्र जिसके साथ इस
प्रकार का प्रमाण पत्र भेजा गया
था, उसका संकेत कर देना
चाहिए।

अनुबन्ध—3

शपथ-पत्र का प्रारूप

..... (सहकारी समिति का नाम) के सचिव/अध्यक्ष श्री मुपुत्र
जिनका निवास स्थान है का शपथ-पत्र ।

मैं उपर्युक्त नामक अभिसाक्षी एतद् द्वारा निष्ठापूर्वक शपथ लेता हूँ और घोषणा करता हूँ कि मैं (सहकारी समिति का नाम) की ओर से इस शपथ पत्र की पुष्टि करने के लिए विधिवत् प्राधिकृत हूँ और यह घोषणा करता हूँ :—

1. कि (सहकारी समिति का नाम और पता) ताजे फलों का व्यापार करती रही है और अब भी कर रही है ।
2. कि यदि उपर्युक्त पैरा (1) में उल्लिखित घोषणा गलत या झूठी पाई जाती है तो इस घोषणा के आधार पर पूर्वोक्त सहकारी समिति को प्रदान किया गया कोई भी लाइसेंस सरकार द्वारा आरोपित किसी भी दंड या यथा संशोधित आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम और आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के अधीन की जाने वाली किसी अन्य कार्रवाई को ध्यान में रखे बिना रद्द कर दिया जाएगा ।

अभिसाक्षी

सत्यापन

मैं एतद्द्वारा निष्ठापूर्वक शपथ लेता हूँ और घोषणा करता हूँ कि इस घोषणा पत्र में दिए गए विवरण मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं और कुछ भी छुपाया नहीं गया है ।

अभिसाक्षी

ए० एस० गिल,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मन्त्रालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977

